



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 22—मार्च 28, 2008 (चैत्र 2, 1930)

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 22—MARCH 28, 2008 (CHAITRA 2, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2008

सं. 133, दिनांक 21 फरवरी 2008—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 73) के अधिकारी श्री सत्यनारायण दास का योजना आयोग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 31 दिसम्बर, 2007 (अपराह्न) से रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (गुजरात : 86) के अधिकारी श्री संजय प्रसाद को, 28 दिसम्बर, 2007 से 3 (तीन) वर्ष के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, भारतीय दूतावास, मास्को में परामर्शदाता (समन्वय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, भारतीय राजस्व सेवा (आईटी : 89) के अधिकारी श्री दपिन्दर सिंह चावला का आयकर मुख्य आयुक्त नई दिल्ली के कार्यालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 01 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से 31 जनवरी, 2013 तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री रोहताश सिंह को, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक

10 जनवरी, 2008 के आदेश संख्या 04 अप्रैल 2007—सी एस-1 के तहत 01 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक रक्षा मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:—

(i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, की नफरी के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एन. सी. गौड़ को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के आदेश संख्या 04 अप्रैल 2007—सी एस-1 के तहत 14 दिसम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय, में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एस डी पाल को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जनवरी, 2008 के आदेश संख्या 04 अप्रैल 2007-सी एस-I के तहत 01 फरवरी, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक इसी मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी उप सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के रक्षा मंत्रालय के निम्नलिखित सहायकों को 3 दिसम्बर, 2007 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक इनमें से जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 6,500-200-10,500/--- रुपए के वेतनमान में इसी मंत्रालय के तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं:--

1. श्रीमती नीलम भूयानी
2. श्री जोगेश चंद्र
3. श्री एस के सिक्का
4. श्री वीरेन्द्र कुमार

2. उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:--

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा; और
- (ii) केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली में विहित भर्ती के सामान्य माध्यमों द्वारा नियमित अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

वर्ष 2004 के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) (निजी सचिव) की चयन सूची (वरिष्ठता कोटा) में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग के संवर्ग में कार्यरत आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री प्रदीप कुमार को, 21 जनवरी 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. देब
अवर सचिव

(वित्त प्रभाग)

सं. 134, दिनांक 21 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, डॉ. दिनेश कुमार त्यागी, आई.एफ.एस. (एमएच : 87) को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 17 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री वेद प्रकाश, आई.आर.ए.एस. (एमएच : 87) को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 07 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

रमेश कुमार
निदेशक (स्था.)

सेना शाखा

सं. 135, दिनांक 21 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै. बनाया जाता है

नांगमेईकापम दानिश (टीए-42681), इन्फैन्ट्री, 14 मई 2007 (एफएन)

जितेन्द्र जीत सिंह (टीए-42682), इन्फैन्ट्री, 19 मई 2007 (एफएन)

कपील देव पाण्डेय (टीए-42683), इन्फैन्ट्री, 12 जून 2007 (एफएन)

राजेश भारद्वाज (टीए-42684), इन्फैन्ट्री, 08 जून 2007 (एफएन)

श्रीहरि कुगाजी (टीए-42685), इन्फैन्ट्री, 16 जून 2007 (एफएन)

संजीव कौरा (टीए-42689), इन्फैन्ट्री, 04 अगस्त 2007 (एफएन)

सचिन राणा (टीए-42690), इन्फैन्ट्री, 20 अगस्त 2007 (एफएन)

जयराज
अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 136, दिनांक 22 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति महोदय स से मु सिविल सेवा नियम 2001 के अंतर्गत श्री देवी दयाल (जन्म तिथि 14 मई 1953) अनुभाग अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित अवधियों तक अथवा नियमित पदधारी मिलने तक बढ़ाने के लिए सहर्ष मंजूरी प्रदान करते हैं:--

क्र सं. अवधि

1. 24 फरवरी 2006 से 23 अगस्त 2006
2. 24 अगस्त 2006 से 23 फरवरी 2007
3. 24 फरवरी 2007 से 23 अगस्त 2008

2. नियुक्ति पूर्ण रूप से कामचलाऊ आधार पर है और प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी मिलने पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

3. स.से.मु. सिविल सेवा नियम 7 (8) के अंतर्गत पदोन्नति/नियुक्ति के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा एवं ऐसी नियुक्ति की अवधि को उप निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशा. अधिकारी

थल सेना विभाग

सं. 137, दिनांक 22 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं।

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर बहादुर सिंह बिष्ट (जेसी-212934एन), पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट, 06 जनवरी 2007

सूबेदार मेजर जितेन्द्र सिंह पुण्धीर (टीजे-2986एम), पहले 105 इन्फैंट्री बटालियन (टी ए), 06 जनवरी 2007

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार स्वरन दास (जेसी-578341ए), पहले जैक राईफल्स, 07 अक्टूबर 2006

सूबेदार बस्तीराम यादवा (जेसी-210884पी), पहले पैरा रेजीमेन्ट, 06 जनवरी 2007

सूबेदार गोविन्द सिंह एस एम (जेसी-538738के), पहले पैरा रेजीमेन्ट, 06 जनवरी 2007

सूबेदार भक्ता बहादुर थापा (जेसी-617220एक्स), पहले 05 जी आर, 07 जनवरी 2007

सूबेदार मनबार सिंह रावत (जेसी-528816एच), पहले गढ़वाल राईफल्स, 08 अप्रैल 2007

सूबेदार माल सिंह खंगारोट (जेसी-184976एफ), पहले राज राईफल्स, 08 अप्रैल 2007

सूबेदार बुद्धराम बराला (जेसी-185461एन), पहले पैरा रेजीमेन्ट, 08 अप्रैल 2007

सूबेदार सान्ता कुमार लिम्बू (जेसी-194708एल), पहले 11 जी आर, 08 अप्रैल 2007

सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-262532एम), पहले आर्टिलरी रेजीमेन्ट, 08 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-448364एक्स), पहले ग्रेनेडियर्स, 06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार सत्यपाल सिंह (जेसी-528833एच), पहले गढ़वाल राईफल्स, 06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार प्रीतपाल सिंह (जेसी-428643एफ), पहले पंजाब रेजीमेन्ट, 06 जनवरी 2007

नायब सूबेदार चरनजीत सिंह (जेसी-508209एच), पहले सिख ली, 12 जनवरी 2007

नायब सूबेदार रतन सिंह (जेसी-238168ए), पहले आर्मड कोर, 08 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बच्चे सिंह (जेसी-538634एच), पहले कुमाऊं रेजीमेन्ट, 08 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार शंकरन वी (जेसी-438527एम), पहले मद्रास रेजीमेन्ट, 08 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार राम स्वरूप (जेसी-402599एल), पहले ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, 08 अप्रैल 2007

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 138, दिनांक 22 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित भूतपूर्व सहयोगी एनसीसी अफसरों को उनके नाम के सामने दी गई तारीखों से

राष्ट्रीय कैडेट कोर में मेजर/लेफ्टि/चीफ ऑफिसर/पायलट ऑफिसर/लेफ्टिनेंट का अवैतनिक रैंक प्रदान करते हैं:--

रैंक, नाम, एनसीसी तथा निदेशालय, अवैतनिक रैंक और अवैतनिक रैंक प्रदान करने की तारीख

चीफ ऑफिसर कृष्णा कुमार शर्मा (एनसीसीजे-13620), एनसीसी निदेशालय, यूपी, लेफ्टिनेंट, 30 जून 2006

मेजर सोरन सिंह (एनसीसी-13854), एनसीसी निदेशालय, यूपी, मेजर, 03 जुलाई 2006

मेजर एस एम मोहन (एनसीसी-14406), एनसीसी निदेशालय टीएन पी एवं ए एन, मेजर, 30 जून 2006

मेजर के विद्यासागर (एनसीसी-14083), एनसीसी निदेशालय टीएनपी एवं ए एन, मेजर, 31 मई 2006

लेफ्टिनेंट कमाण्डर जी एस नरसिम्हा (एनसीसीएन-16186), एनसीसी निदेशालय, महाराष्ट्र, लेफ्टिनेंट कमाण्डर, 07 जून 2007

चीफ ऑफिसर ब्रिज किशोर दूबे (एनसीसीजे-6267), एनसीसी निदेशालय, एम पी एवं सी, लेफ्टिनेंट, 09 जून 2007

मेजर ब्रोजेन्द्र नारायण पटनायक (एनसीसी-16765), एनसीसी निदेशालय, उड़ीसा, मेजर, 06 अगस्त 2006

चीफ ऑफिसर सूर्यामनी नायक (एनसीसीजे-61594), एनसीसी निदेशालय, उड़ीसा, लेफ्टिनेंट, 24 सितम्बर 2006

मेजर डॉ. जे पी सिंह (एनसीसी-17250), एनसीसी निदेशालय, यू.पी., मेजर, 30 जून 2007

यू. के. धर

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एमएस)

रक्षा मंत्रालय

संख्या 139, दिनांक 22 फरवरी 2008--भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश :73) की अधिकारी श्रीमती रीता सिन्हा के स्थान पर अपर सचिव के रैंक और वेतन में सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग के पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 77) के अधिकारी रक्षा मंत्रालय (वित्त) में संयुक्त सचिव एवं अपर वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत श्री मोहम्मद हलीम खान की सेवाएं 18 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय सूचना आयोग को सौंपी जाती हैं।

एस. के. देव

अवर सचिव

सं. 140, दिनांक 25 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को जिन्हे स्थायी कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पुष्टि करते हैं।

भारतीय वायु सेना

उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर स्पर्श सिंघल (28188), नाटु अजय यशवंत (28192), बोकाने अजीत (28198), सिद्धार्थ कुमार (28208) और जस्टिन इलियास (28212) 18 दिसम्बर 2004 से प्रभावी।

एन. परनन

विंग कमांडर

जेडीपीओ-3(डी)

वायु शाखा

सं. 141, दिनांक 25 फरवरी 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं:--

भारतीय वायु सेना

संभारिकी शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में

ए के माधुर (15754), संभा, 01 नवम्बर 2006

[इनका नाम ग्रुप कैप्टन आर पी जार्ज (15751) संभा के नीचे आयेगा]

के. वी. शंकर

संयुक्त निदेशक कार्मिक

(आधिकारों)-2बी

वायु सेना मुख्यालय

सं. 142, दिनांक 25 फरवरी 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा में अस्थायी तौर पर निजी सचिव, (ग्रुप ख राजपत्रित, वेतनमान 6,500-10,500 रुपये), के पद पर उनके नाम के आगे अंकित तिथि अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, पदोन्नत करते हैं:--

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	पदोन्नति की तिथि	
		कब से	कब तक
1.	जोगिन्द्र कौर नागी	30 अप्रैल 2007	30 जून 2007
2.	एन के चोपड़ा	19 जून 2007	30 जून 2007
3.	आर के मदान	30 मई 2007	30 जून 2007
4.	कृष्णा सरदाना	30 मई 2007	30 जून 2007
5.	आर के देवानी	11 जून 2007	30 जून 2007

2. उपरोक्त अधिकारियों की निजी सचिव के रूप के पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:--

क. यह पदोन्नतियाँ पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों से बिना किसी सूचना दिये समाप्त की जा सकती हैं।

ख. उपर्युक्त पद पर स्थाई पदोन्नति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा और न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 143, दिनांक 26 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति महोदय सहर्ष से निम्नलिखित निदेशकों को संयुक्त निदेशक (स्व स्थाने) के पद पर दिनांक 03 जुलाई 2000 से पदोन्नत करने के लिए मंजूरी प्रदान करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्रीमती एस चेल्लम	23 मार्च 1950
2.	श्री पी एस रातोड	01 मई 1953
3.	श्री आर नटराजन	15 जुलाई 1954
4.	श्री त्रीलोचन रौट	09 अप्रैल 1959
5.	श्री सुकुमार चक्रवर्ती	30 नवम्बर 1953
6.	श्री अनील मलहोत्रा	02 दिसम्बर 1955
7.	श्री पी के शुक्ल	30 मार्च 1956
8.	श्रीमती पूनम गोयला	20 जुलाई 1959
9.	श्री एस सी मिनोच्चा	06 अक्टूबर 1952
10.	श्री एस के श्रीवास्तव	08 जुलाई 1953
11.	श्री गुरवीर सिंह	30 मई 1953

2. उपरोक्त अधिकारियों की यह पदोन्नतियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:--

- (क) संयुक्त निदेश के उच्च ग्रेड पर स्व स्थाने नियुक्ति पदधारी की वैयक्तिकता होगी।
- (ख) संयुक्त निदेशक के उन्नत पद पर नियुक्ति से अधिकारी संयुक्त निदेशक के ग्रेड में संयुक्त निदेशक की नियमित नियुक्ति या वरिष्ठता का दावा करने का पात्र नहीं होगी।
- (ग) ऐसे पदों के पदधारियों के उच्च ग्रेड में जब कभी वास्तविक नियमित रिक्ति पद पर पदोन्नत या सेवानिवृत्त होने एवं त्यागपत्र देने आदि से रिक्त हुए पद स्वतः मूल स्तर पर प्रत्यावर्तित हो जायेंगे।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशा. अधिकारी

थल सेना शाखा

सं. 144, दिनांक 26 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

एयर कोमोडोर (व समकक्ष) ए वी एम (व समकक्ष)

एच सुब्रह्मान्या (एमआर-2960एक्स) (वा से-12910), 01 मई 2007 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है।

पवन कपूर

कर्नल, निदेशक स.से.चि.से. (कार्मिक)

सं. 145, दिनांक 26 फरवरी 2008.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

एससी न. नाम, आर्म और मेजर दिनांक से

00313 विनोद कुमार, एसी, 09 जून 2007

00317 शंकरनारायणन टी, आर्टी, 09 जून 2007

00363 भूपिन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2007

00367 सादू राम भाकर, एएससी, 09 दिसम्बर 2007

00395 हरीश चन्द्र बिष्ट, एओसी, 09 जून 2007

एससी नं., नाम और आर्म

00397 सुरेन्द्र सिंह, एएडी

00398 वेंकटेशन आर, ईएमई

0399 गना सेकर के, ए सी

00400 संजय कुमार, सिग्नल्स

00401 सुन्दर बहादुर छेत्री, इन्फैन्ट्री

00402 दिनेश कुमार पाठक, एओसी

00403 रोहताश, इंजी.

00404 राज कपूर, सिग्नल्स

00405 रविन्द्र सिंह, एएडी

00406 प्रभाकरण के पी, आर्टी

00408 सत्य नारायणा के बी, इन्फै.

00409 सतविन्द्र सिंह, ईन्ट

00410 बालम सिंह, एओसी	00082 सुनीता यादव, एससी, 20 अगस्त 1995, 04 (नान टैक), 16 दिसम्बर 2004
00411 सेथिल कुमार आर, आर्टी	
00412 सुरेन्द्र सिंह नेगी, इन्फैन्ट्री	00523 रीता देब, इंजीनियर्स, 02 सितम्बर 2001, 16 (नान टैक), 02 सितम्बर 2007
00413 धर्मवीर सिंह, आर्टी	
00414 संजय थापा, इन्फैन्ट्री	
00415 विनोद कुमार, इन्फैन्ट्री	लेफ्टिनेंट से कप्तान
00416 तोन्दुप बांगेल, इन्फैन्ट्री	
00417 जोशी पदमादन्त भुवन, इन्फैन्ट्री	एस एस नं., नाम, आर्म, वरीयता, कोर्स सं., संशोधित वरीयता तिथि और दिनांक से
00418 सुनील कुमार त्यागी, इंजी.	
00419 एन त्यागाराजन, सिग्नल्स	38891 रविन्द्र सिंह जामवाल, सिग्नल्स, 07 मार्च 1999, एसएससी-14 (टैक), 07 मई 1999/16 दिसम्बर 2004
00420 अब्दुल रहीम, एससी	38904 दिनेश कुमार गुप्ता, सिग्नल्स, 07 मार्च 1999, एसएससी-14 (टैक), 07 मई 1999/16 दिसम्बर 2004
00421 विवैक माँय गोस्वामी, इन्फै.	
00422 वी वेंकटेश, इन्फै.	39367 हेमन्त शर्मा, एसी, 01 सितम्बर 2001, एसएससी-72 (नान टैक), 01 मई 2002/16 दिसम्बर 2004
00423 ध्यान सिंह, आर्टी	39900 मनदीप सिंह, ईएमई, 07 सितम्बर 2002, एसएससी-74 (नान टैक), 07 मई 2003/07 मई 2005
00424 हरभजन सिंह, इन्फै.	
00425 हरी प्रसाद चौधरी, इंजी.	40249 परवित कुमार सिवाच, ईएमई, 06 सितम्बर 2001, एसएससी-19 (टैक), 06 नवम्बर 2001/16 दिसम्बर 2004
00426 सुनील कुमार जी आर, आर्टी	40260 भूपेन्द्र सिंह ग्रेवाल, ईएमई, 06 सितम्बर 2001, एसएससी-19 (टैक), 06 नवम्बर 2001/16 दिसम्बर 2004
00427 अशोक कुमार तोमर, ईएमई	40261 विक्रम बिर्सा, ईएमई, 06 सितम्बर 2001, एसएससी-19 (टैक), 06 नवम्बर 2001/16 दिसम्बर 2004
00428 विजय थापा, इन्फै.	40382 राहुल दत्त शर्मा, सिग्नल्स, 06 सितम्बर 2003, एसएससी-76 (नान टैक), 06 मई 2004/06 मई 2006
00429 अब्दुल रशीद, एसी	40526 अनुज कुमार आचार्या, इंजी., 20 मार्च 2002, एसएससी-20 (टैक), 20 अप्रैल 2002/16 दिसम्बर 2004
00430 कपडनीश अरून पी, आर्टी	
00431 गुरिन्दर सिंह सन्धु, ईएमई	
00432 अमरजीत सिंह, इन्फैन्ट्री	
00433 विनसेन्ट लोबो, एससी	
00434 सुनील कुमार एन पी, ईएमई	
00435 जयपाल सिंह नगर कोटी, मैक इन्फैन्ट्री	

--08 दिसम्बर 2007--

स्थायी कमीशन (एसएल)

कप्तान से मेजर

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (मेन)

कप्तान से मेजर

नाम, एसएल नं., आर्म और मेजर दिनांक से

राज कुमार गुल्गु (4372), एसएल/टीओएबी, 16 दिसम्बर 2004

एसएस नं., नाम, आर्म, कोर्स सं., पदोन्नति के लिए संशोधित वरिष्ठता सूची और मेजर दिनांक से

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

38423 नीरज कौशिक, एसी, 69 (नान टैक), 04 नवम्बर 2000/04 नवम्बर 2006

एमएस-8सी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 146, दिनांक 26 फरवरी 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं।

क्रम. सं.	नाम श्री/श्रीमती	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नति ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	आई लक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
2.	के वी सुरेन्द्र	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
3.	एम वानी राज्य लक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
4.	एम द्वारका नाथ	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
5.	सी एच प्रमिला	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
6.	के सुधाकर बाबू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
7.	अशोक करवाल्कर	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
8.	जी रमेश बाबू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
9.	के रमेश बाबू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
10.	सी एच अन्नपूर्णया	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
11.	जी ऊषा किरन	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
12.	ए किरनमाई	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
13.	सी एच एल बी श्रीनिवास शर्मा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
14.	पी नीलकंठ राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
15.	वाई वेकटेश्वर राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
16.	जी आई प्रेम सागर	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
17.	डी लिंगईय्या	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
18.	सी प्रभाकरा चैटी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
19.	के रमेश	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
20.	मंथ्रवादी विजय लक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
21.	मिनाक्षी शास्त्री	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
22.	बी नागावेनी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
23.	पी विजय लक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
24.	जी गिरिजा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
25.	जूवैदा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
26.	पी वी एस शास्त्री	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
27.	ए किरिलम्मा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
28.	टी एस वी सुब्रमण्यम	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
29.	ए वर्गीस पॉल	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
30.	के एस पिल्लै	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
31.	एम सोम सुन्दरम	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
32.	निर्मला जैकॉब	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
33.	ए शन्वास	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
34.	सुशीला एन्नी जोसेफ	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
35.	जॉर्ज थॉमस	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
36.	एम आर चन्द्रन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
37.	के जे जॉन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
38.	सुकुमारी अम्मा के एन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

1	2	3	4	5	6
39.	शाइमी दिनेश	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
40.	पी जी मोहनन	एनपीओएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
41.	डॉ पी सी पंत	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
42.	देश राज	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
43.	एस सी अग्रवाल	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
44.	तिलक कुमार गांगुली	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
45.	अजय नारायण वाजपेयी	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
46.	वी एस सिसोदिया	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
47.	एस के शम्यावर	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
48.	अरूण वीर आनन्द	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
49.	ए के श्रीवास्तव	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
50.	हरजीत सिंह	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
51.	अरूण कुमार मिश्रा	डीएमएसआरडीई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
52.	पी उमामहेश्वर रेड्डी	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
53.	बी बालुदु	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
54.	एन अशोक कुमार	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
55.	डी वेनुगोपाल	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
56.	एस के मोहिनुद्दीन अहमद	आरसीआई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
57.	जे वेंकटेश्वर राव	आरसीआई	तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी	रु. 7,450-225-11,500
58.	ए सी शिव शंकर मरार	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
59.	वी आर सुरेश बाबू	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
60.	एम पी अलेयम्मा	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
61.	पी सुरेश कुमार	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
62.	लैली जोसेफ	एनपीओएल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
63.	मिनाक्षी बसु	डिपास	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
64.	ललन ठाकुर	डिपास	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
65.	जोगिन्दर डे	डिपास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
66.	ए के गुप्ता	डिपास	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
67.	परवीन राजपूत	सीएफईईएस	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 12,000-375-16,500
68.	रश्मी भल्ला	सीएफईईएस	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
69.	के झांसी लक्ष्मी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
70.	वी अरूणा कुमारी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
71.	वी अशोक	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
72.	एस के तिवारी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
73.	ए वारालक्ष्मी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
74.	जी वी रेड्डी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 10,000-275-13,500
75.	पी सीना रेड्डी	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
76.	श्री निवासो गौड़	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
77.	पी सत्यनारायण राव	आरसीआई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
78.	बी वी ए कृष्णा	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
79.	बी वाई केशव दास	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
80.	पी आर लक्ष्मी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
81.	एन श्री रामूलू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
82.	के वरहला राव	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
83.	ए वी सुव्वाराजू	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
84.	जी सूर्या कुमारी	डीएलआरएल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500

बी बी शर्मा
उप निदेशक (कार्मिक-I)

सेना सचिव शाखा

नियमित सेना

सं. 147, दिनांक 27 फरवरी 2008--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म और ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि
कर्नल वी पी मुंजाल (आईसी-27949), ईएमई, 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 नवम्बर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल टी के दास (आईसी-30056), सिग्नल्स, 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

कर्नल प्रमोद कुमार (आईसी-31553), ईएमई, 01 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2004 से दी जाएगी।

कर्नल के के मारवाह (आईसी-31560), ईएमई, 04 अक्टूबर 2006 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 अप्रैल 2004 से दी जाएगी।

एन के फूकन
एएमएस/एमएस (एस)

थल सेना विभाग

सं. 148, तारीख 27 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर, पदोन्नति दिनांक

बी एच एम कुन्दन सिंह (सं. 4179034ए अब जेसी-826189एफ),
05 अक्टूबर 2007/01 अक्टूबर 2007*

बी एच एम सिराज खान (सं. 6380790पी अब जेसी-826190डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2007

बीएचएम यसपाल (सं. 14495529एम अब जेसी-826191वाई),
01 अक्टूबर 2007

बीएचएम विवेकनन्द रावलो (सं. 15101312के अब जेसी-826192एफ), 15 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

बीएचएम अशोक कुमार (सं. 9086781एन अब जेसी-826193के),
08 नवम्बर 2007/01 नवम्बर 2007*

पेड कार्यकारी सूबेदार बी आर हिरेमठ (जेसी-826141एन), 01 नवम्बर 2007

पेड कार्यकारी सूबेदार अर्जुन सिंह (जेसी-826142डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007

पेड कार्यकारी सूबेदार लाल बहादुर राणा (जेसी-826140एल),
01 दिसम्बर 2007

पेड कार्यकारी सूबेदार आर एच मगदूम (जेसी-826143वाई),
01 दिसम्बर 2007

पेड कार्यकारी सूबेदार मेजर करिअप्पा के ए (जेसी-826073एल), 01 दिसम्बर 2007

प्रीत पाल सिंह
प्रवर सचिव

सं. 149, दिनांक 27 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर

बंगाल इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में

आरआरटी श्री राम चतुर्वेदी (सं. 329915एन अब जेसी-329915एन),
02 दिसम्बर 2006

लॉसनायक हरपाल सिंह (सं. 4475508एक्स अब जेसी-329968एम),
02 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार माता प्रसाद (सं. 1470145एम अब जेसी-338132डब्ल्यू),
05 जून 2007\$

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1471606एक्स अब जेसी-338133वाई),
18 मार्च 2007#

हवलदार विनोद कुमार (सं. 1473826ए अब जेसी-338134एफ),
26 जून 2007&

हवलदार मिराजुल रहमान (सं. 1494226एल अब जेसी-338135के),
28 सितम्बर 2007%

हवलदार सुशील कुमार साह (सं. 1477635एच अब जेसी-338136एम),
10 सितम्बर 2007%

हवलदार हरदीप सिंह (सं. 1473859एल अब जेसी-338137पी),
07 सितम्बर 2007%

हवलदार वेद प्रकाश जसवाल (सं. 15335371एम अब
जेसी-338138एक्स), 07 सितम्बर 2007%

हवलदार गुणा नन्द नाथ (सं. 1475404डब्ल्यू अब जेसी-338139ए),
01 अगस्त 2007%

हवलदार पाल सिंह (सं. 1475562एच अब जेसी-338140पी),
01 अगस्त 2007%

हवलदार सरबजीत सिंह (सं. 1475824एन अब जेसी-338141एक्स),
01 अगस्त 2007%

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 1476007एफ अब जेसी-338142ए),
03 सितम्बर 2007@

हवलदार उमेश चन्द्र (सं. 1476009एम अब जेसी-338143एच),
03 सितम्बर 2007@

हवलदार कुन्दन सिंह गरिया (सं. 1476060एम अब
जेसी-338144एल), 01 सितम्बर 2007@

हवलदार हर सिंह (सं. 1476164एन अब जेसी-338145एन),
01 अक्टूबर 2007@

हवलदार धर्मा नन्द (सं. 1476218के अब जेसी-338146डब्ल्यू),
21 सितम्बर 2007@

हवलदार उमेश (सं. 1476227एल अब जेसी-338147वाई),
19 सितम्बर 2007@

हवलदार सूरज देब डे (सं. 1472940एल अब जेसी-338148एफ),
17 सितम्बर 2007@

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 1473390ए अब जेसी-338149के),
01 अक्टूबर 2007@

हवलदार दलबीर सिंह रावत (सं. 1475019के अब जेसी-338150वाई),
19 अक्टूबर 2007*

हवलदार सन्तोष कुमार (सं. 1476126एक्स अब जेसी-338151एफ),
16 अक्टूबर 2007*

हवलदार मंजीत सिंह (सं. 1476401एम अब जेसी-338152के),
20 अक्टूबर 2007*

हवलदार डाण्डी नाथ कलीता (सं. 1469198वाई अब
जेसी-338153एम), 07 नवम्बर 2007**

हवलदार सोहन सिंह (सं. 1469151एन अब जेसी-338154पी),
02 नवम्बर 2007**

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार महेन्द्र पाल सिंह (सं. 1472368एच अब जेसी-338155एक्स),
17 अक्टूबर 2007+

हवलदार बहादुर सिंह (सं. 1468741ए अब जेसी-338156ए),
17 सितम्बर 2007&

हवलदार जोर्ज कुट्टी बी एम (सं. 1468244डब्ल्यू अब
जेसी-338157एच), 16 अगस्त 2007&

हवलदार दीपांकर भट्टाचार्य (सं. 1473256पी अब जेसी-338158एल),
05 सितम्बर 2007&

हवलदार अनिल कुमार (सं. 1474380एच अब जेसी-338159एन),
31 अगस्त 2007++

हवलदार रण सिंह (सं. 1474395एल अब जेसी-338160एच), 11
जुलाई 2007++

हवलदार जमील अहमद (सं. 1474390एम अब जेसी-338161एल),
24 अगस्त 2007++

हवलदार स्वपन कुमार मुहरी (सं. 1474449एफ अब
जेसी-338162एन), 04 अगस्त 2007++

हवलदार बिकाश नाग (सं. 1474450डब्ल्यू अब जेसी-338163डब्ल्यू),
14 अगस्त 2007%

हवलदार देबा प्रशान्त मुखर्जी (सं. 1474438पी अब जेसी-338164वाई),
14 अगस्त 2007%

हवलदार ब्रिज कान्त मिश्रा (सं. 1474435एफ अब जेसी-338165एफ),
11 सितम्बर 2007%

हवलदार हरूदा नन्दा स्वेन (सं. 1474482वाई अब जेसी-338166के),
20 सितम्बर 2007@

हवलदार कृष्ण लाल (सं. 1474496वाई अब जेसी-338167एम),
01 सितम्बर 2007@

हवलदार बिकाश चन्द्रा दास (सं. 1474517के अब जेसी-338168पी),
20 सितम्बर 2007@

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 1474519पी अब जेसी-338169एक्स),
01 सितम्बर 2007@

हवलदार नील कमल मण्डल (सं. 1474570पी अब जेसी-338170एम),
13 सितम्बर 2007@

हवलदार राज पाल सिंह (सं. 1474580वाई अब जेसी-338171पी),
14 सितम्बर 2007@

हवलदार केशव राम पाण्डेय (सं. 1474613वाई अब जेसी-338172एक्स), 27 अक्टूबर 2007*

हवलदार राम स्वरूप (सं. 1474682पी अब जेसी-338173ए),
01 नवम्बर 2007*

हवलदार जोगेश्वर गोगई (सं. 1474685एच अब जेसी-338174एच),
27 अक्टूबर 2007*

हवलदार पबित्रा गोगई (सं. 1474687एन अब जेसी-338175एल),
05 नवम्बर 2007*

हवलदार मुन्ना सेठ (सं. 1474691डब्ल्यू अब जेसी-338176एन),
01 नवम्बर 2007**

हवलदार विवेका नन्दा पाल (सं. 1474705एल अब जेसी-338177डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2007**

हवलदार सौमेन्दु दास (सं. 1474693एफ अब जेसी-338178वाई),
06 नवम्बर 2007**

हवलदार अजीत कुमार घोष (सं. 1474697एक्स अब जेसी-338179एफ), 01 नवम्बर 2007**

हवलदार अमर नाथ यादव (सं. 1474703ए अब जेसी-338180डब्ल्यू),
02 नवम्बर 2007**

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006)

\$(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007)

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007)

++(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007)

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007)

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007)

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार (जीडी) मेजर सिंह (सं. 1570603एम अब जेसी-350591एफ),
08 नवम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) बलविन्द्र सिंह (सं. 1567825डब्ल्यू अब जेसी-350592के), 10 अक्टूबर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) मेवा सिंह (सं. 1571377एम अब जेसी-350597एच),
25 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) अब्दुल गनी मन्सुरी (सं. 1571612ए अब जेसी-350598एल), 05 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) मुनीर अहमद खान (सं. 1559866एल अब जेसी-350599एन), 12 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) खेम चन्द (सं. 1567604के अब जेसी-350600एक्स), 12 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) तिलक राज (सं. 1567760एन अब जेसी-350601ए), 04 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) नवतेज सिंह (सं. 1579177एक्स अब जेसी-350602एच), 01 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) मोहम्मद अदालत (सं. 1569539एन अब जेसी-350603एल), 25 सितम्बर 2007

हवलदार (जीडी) गुरमीत सिंह (सं. 1573157एफ अब जेसी-350604एन), 21 सितम्बर 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सतपाल सिंह (सं. 1567314एम अब जेसी-350608के), 31 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) अवतार सिंह (सं. 1567438एफ अब जेसी-350609एम), 06 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) प्रेम सिंह (सं. 1567938वाई अब जेसी-350610एफ),
06 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) अमरजीत सिंह (सं. 1567949एल अब जेसी-350611के), 08 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) मोरे विजय वासुदेव (सं. 1568798के अब जेसी-350612एम), 07 नवम्बर 2007

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) मलकीयत सिंह (सं. 1569870एफ अब जेसी-350613पी), 07 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सतविंदर सिंह (सं. 1567061एच अब जेसी-350617एल), 18 अक्टूबर 2007

हवलदार (जीडी) अशोक कुमार पांडे (सं. 1567572एम अब जेसी-350618एन), 28 अक्टूबर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) मनजीत सिंह (सं. 1559395एच अब जेसी-350620एल), 08 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) कुलवंत सिंह (सं. 1567778के अब जेसी-350621एन), 28 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) मोहम्मद शकील (सं. 1568745एल अब जेसी-350622डब्ल्यू), 07 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) सतपाल सिंह (सं. 1567806एल अब जेसी-350626एम), 21 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) हिरालाल हगरूजी बडसे (सं. 1568117डब्ल्यू अब जेसी-350627पी), 30 नवम्बर 2007

हवलदार (जीडी) बलदेव सिंह (सं. 1568452ए अब जेसी-350628एक्स), 20 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) प्यार चन्द (सं. 1572213एच अब जेसी-350629ए), 01 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (जीडी) बलकार सिंह (सं. 1558497एम अब जेसी-350638एफ), 14 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) बलबीर सिंह (सं. 1567126एल अब जेसी-350639के), 20 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) मोहम्मद जहीर खान (सं. 1567305एल अब जेसी-350640वाई), 18 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) सदानंद सखाराम सावंत (सं. 1567385एन अब जेसी-350641एफ), 24 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) हरीनाथ प्रसाद (सं. 1567981ए अब जेसी-350642के), 18 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) महमुद (सं. 1568289एल अब जेसी-350643एम), 25 दिसम्बर 2007

हवलदार (जीडी) प्रमोद कुमार सिंह (सं. 1569484पी अब जेसी-350644पी), 19 दिसम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) दयानंद (सं. 1576546एम अब जेसी-350593एम), 12 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) रामआश्रय तिवारी (सं. 1576871एम अब जेसी-350594पी), 10 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) शैतान सिंह यादव (सं. 1577094एफ अब जेसी-350595एक्स), 28 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) सिसोदिया भमर सिंह गम्भीर सिंह (सं. 1578915एक्स अब जेसी-350596ए), 14 सितम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) चांदी राम (सं. 1576847डब्ल्यू अब जेसी-350605डब्ल्यू), 19 नवम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) अजय कुमार (सं. 1576966एम अब जेसी-350606वाई), 17 नवम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) बलबीर सिंह चंदेल (सं. 1577587एच अब जेसी-350607एफ), 06 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) लखविन्दर सिंह (सं. 1578412एम अब जेसी-350614एक्स), 06 नवम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) फालके हम्बीरराव तुकाराम (सं. 1578929एक्स अब जेसी-350615ए), 14 नवम्बर 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

(थल सेना विभाग)

सं. , तारीख-- राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

कोर ऑफ इंजीनियर्स

बम्बई इंजीनियर ग्रुप

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क जीडी) योगिन्द्र सिंह (सं. 1576912एल अब जेसी-350616एच), 21 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) जीवन राम (सं. 1577352डब्ल्यू अब जेसी-350619डब्ल्यू), 05 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) एस सुरेश (सं. 1574337डब्ल्यू अब जेसी-350623वाई), 10 नवम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) केशव प्रसाद (सं. 1576171वाई अब जेसी-350624एफ), 10 नवम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) अजीत कृष्णा बिसबास (सं. 1578751एम अब जेसी-350625के), 26 नवम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) प्रकाश चन्द्र राजपूत (सं. 1575152एफ अब जेसी-350630पी), 15 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2007 से दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क जीडी) कदम सुदाम वसंतराव (सं. 1578937डब्ल्यू अब जेसी-350631एक्स), 24 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) नयकिंडे सूर्यकांत निलकंठ (सं. 1578944एम अब जेसी-350632ए), 07 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) निर्मल ठाकुर (सं. 1574849एच अब जेसी-350633एच), 10 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) राधाकृष्णन बी (सं. 1578951एच अब जेसी-350634एल), 07 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) जोस वी जे (सं. 1578953एन अब जेसी-350635एन), 10 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) नरेश कुमार पनवर (सं. 1579021एन अब जेसी-350636डब्ल्यू), 08 दिसम्बर 2007

हवलदार (क्लर्क जीडी) के मुरुगन (सं. 1579220एफ अब जेसी-350637वाई), 07 दिसम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2007 से दी जायेगी)

अल्का जोशी

अवर सचिव

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अबोबाकर टी (सं. 15157933पी अब जेसी-270944एच), 03 सितम्बर 2007/15 दिसम्बर 2006*

आरएचएम मोहिन्दर सिंह (सं. 15106071वाई अब जेसी-270945एल), 24 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम मल्लीकार्जुन गौड़ पाटील (सं. 14410107एम अब जेसी-270946एन), 26 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम नरेश कुमार (सं. 14417890एल अब जेसी-270947डब्ल्यू), 11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम शेगवी कोशीलिंग सिदानीनगा (सं. 14407885एम अब जेसी-270948वाई), 31 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम पाटील रामदास निवृत्ती (सं. 14411842पी अब जेसी-270949एफ), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम लालम सूरी बाबू (सं. 14420645एन अब जेसी-270950डब्ल्यू), 21 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम पोटे किशन थनाजी (सं. 14403501पी अब जेसी-270951वाई), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम नरेश कुमार (सं. 14414468एच अब जेसी-270952एफ), 31 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

आरएचएम के चेन्द्रा शेखर (सं. 15120706एक्स अब जेसी-270953के), 17 अक्टूबर 2007/11 अक्टूबर 2007*

हवलदार जन्दू सिंह (सं. 14497951एच अब जेसी-270954एम), 01 मई 2007/21 जुलाई 2006*

हवलदार सुमेश ताना भगत (सं. 14479913के अब जेसी-270955पी), 30 जुलाई 2007/01 मई 2007*

हवलदार हेमंत कुमार नाथ (सं. 14489317एल अब जेसी-270956एक्स), 05 अगस्त 2007/01 जून 2007*

हवलदार बहाबीर (सं. 14385251एन अब जेसी-270957ए),
15 अक्टूबर 2007/16 जून 2007 *

हवलदार दिवाकर प्रताप सिंह (सं. 14389684एच अब जेसी-270958एच), 24 अगस्त 2007/28 जुलाई 2007 *

हवलदार विक्रम सिंह शाही (सं. 14486978ए अब जेसी-270959एल),
30 अगस्त 2007/02 अगस्त 2007 *

बीएचएम के वेलू सामी (सं. 15108584एम अब जेसी-270960ए),
15 सितम्बर 2007/10 अगस्त 2007 *

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 14483046एच अब जेसी-270961एच),
24 अक्टूबर 2007/18 अगस्त 2007 *

हवलदार यश पॉल (सं. 14372095डब्ल्यू अब जेसी-270962एल),
13 नवम्बर 2007/23 अगस्त 2007 *

हवलदार एम मुरगन (सं. 14398020डब्ल्यू अब जेसी-270963एन),
29 अक्टूबर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 14382947एम अब जेसी-270964डब्ल्यू),
11 सितम्बर 2007/01 सितम्बर 2007 *

हवलदार गिरीश कुमार सिंह (सं. 14389688वाई अब जेसी-270965वाई), 22 अक्टूबर 2007/14 सितम्बर 2007 *

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 14377748डब्ल्यू अब जेसी-270966एफ),
17 अक्टूबर 2007/15 सितम्बर 2007 *

हवलदार वडाला मुदी चेचयहा नायडू (सं. 14485255वाई अब जेसी-270967के), 08 अक्टूबर 2007/04 अक्टूबर 2007 *

हवलदार जेसूदास जी (सं. 14489424एम अब जेसी-270968एम),
26 अक्टूबर 2007/04 अक्टूबर 2007 *

हवलदार शशी भूषण शर्मा (सं. 15117799एम अब जेसी-270969पी),
01 नवम्बर 2007 *

*(ज्योष्ठता प्राप्त)

सबस्टैंटिव सूबेदार (जी डी) के पद में

नायब सूबेदार मलकित सिंह (जेसी-265992वाई) 06 अगस्त 2007/
01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार विजयन पिल्ले सी (जेसी-268256एम) 15 सितम्बर
2007/01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार सुरेश बाबू (जेसी-266409एल) 07 अगस्त 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जेसी-266998एम) 04 अगस्त 2007/
20 मई 2007 *

नायब सूबेदार पुरुषोत्तमन एम (जेसी-266460एल) 05 सितम्बर
2007/01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-267817एच) 18 अक्टूबर 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार गुरूदीप सिंह (जेसी-268060एक्स) 18 अक्टूबर
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार ए नेलसन (जेसी-268225एल) 05 अक्टूबर 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार इन्द्रजीत सिंह (जेसी-268486वाई) 15 सितम्बर 2007/
01 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार राजन वाई (जेसी-268690एक्स) 30 अक्टूबर 2007/
06 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार भारत सिंह (जेसी-268962एम) 08 अक्टूबर 2007/
10 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-268133वाई) 11 अक्टूबर 2007/
30 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार मुकुट राम (जेसी-268564एल) 11 अक्टूबर 2007/
30 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार कुलदीप राज शर्मा (जेसी-265938एल) 01 नवम्बर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार सरदार सिंह (जेसी-266945एन) 29 अक्टूबर 2007/
01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार भूप सिंह यादव (जेसी-267047एम) 25 सितम्बर
2007/01 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार पुनवासी यादव (जेसी-268814एफ) 07 नवम्बर
2007/17 सितम्बर 2007 *

नायब सूबेदार रणधीर सिंह (जेसी-267188डब्ल्यू) 28 सितम्बर
2007/30 अगस्त 2007 *

नायब सूबेदार महेश बाबू (जेसी-266065एक्स) 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार श्यामवीर (जेसी-267199एल) 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार राम फल यादव (जेसी-264952एल) 26 अप्रैल 2007/
01 अप्रैल 2007 *

नायब सूबेदार नामजान अहीद (जेसी-267208वाई) 31 अगस्त 2006

नायब सूबेदार एस रामन (जेसी-267671ए) 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-267812के) 04 अक्टूबर 2006/
01 अक्टूबर 2006 *

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-266430एन) 10 अगस्त 2007/
01 जुलाई 2007 *

नायब सूबेदार संतोष कुमार शर्मा (जेसी-266985डब्ल्यू) 08 जून
2007/01 मई 2007 *

नायब सूबेदार राम बहादुर सिंह (जेसी-266203एन) 27 सितम्बर
2007/01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार पाटे गोपीनाथ गंगाधर (जेसी-264155ए) 01 जनवरी
2006

नायब सूबेदार अवदेश कुमार दुबे (जेसी-267073एच) 14 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007 *

नायब सूबेदार हवा सिंह (जेसी-267882एच) 16 जनवरी 2007/
01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार उमेश चन्द्रा (जेसी-266981वाई) 17 अक्टूबर 2007/
01 अगस्त 2007*

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जेसी-264575ए) 07 अप्रैल 2007/01 मार्च
2007*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

कोर ऑफ सिग्नल्स

नायब सूबेदार (वाई ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार एम पी यादव (सं. 15367455एन अब जेसी-377430एच),
01 जुलाई 2007

हवलदार नंद कुमार आर (सं. 15370924डब्ल्यू अब
जेसी-377431एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार के कयारकी (सं. 15366111एच अब जेसी-377450डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एम डी शर्मा (सं. 15377009ए अब जेसी-377451वाई), 01
सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मिथिलेश प्रसाद (सं. 15382383एम अब जेसी-377453के),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 15370993एम अब जेसी-377433डब्ल्यू),
01 जुलाई 2007

हवलदार सतेन्द्र कुमार (सं. 15380388एम अब जेसी-377434वाई),
01 जुलाई 2007

हवलदार शब्बीर आलम (सं. 15373416एल अब जेसी-377435एफ),
01 जुलाई 2007

हवलदार के एस बिष्ट (सं. 15376908पी अब जेसी-377454एम),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार वीरेन्द्र शर्मा (सं. 15375729एच अब जेसी-377455पी),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ओ एन मिश्रा (सं. 15382110के अब जेसी-377456एक्स),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एफ ऑफ एस) के रैंक में

हवलदार जीबिन जोसेफ (सं. 15393254एम अब जेसी-376978एफ),
01 जनवरी 2007

हवलदार आश्रम प्रसाद शर्मा (सं. 15393149डब्ल्यू अब
जेसी-376989एन), 01 जनवरी 2007

हवलदार ए नागाराजन (सं. 15377318एच अब जेसी-377151एक्स),
01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार आर चन्द्र देवनाथ (सं. 15382922ए अब जेसी-377152ए),
01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जे के कर्नवाल (सं. 15392100एन अब जेसी-377153एच),
01 जनवरी 2007

हवलदार मोहम्मद मोहसिन (सं. 15397043एफ अब
जेसी-377154एल), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार किशोर कुमार मादाई (सं. 15388915एक्स अब
जेसी-377155एन), 02 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एस जया कुमार (सं. 15383805वाई अब
जेसी-377156डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एस राधा कृष्णन (सं. 15378426वाई अब जेसी-377157वाई),
01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रमेश लाल (सं. 15391286डब्ल्यू अब जेसी-377158एफ),
01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार राजीसूलाल के (सं. 15393253के अब जेसी-377159के),
01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार जेना (सं. 15397212एक्स अब जेसी-377160वाई), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एन मनोहरन (सं. 15390517पी अब जेसी-377161एफ), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार प्रसन्ना कुमार ओझा (सं. 15383875एक्स अब जेसी-377162के), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ए सेकर (सं. 15375851वाई अब जेसी-377163एम), 01 अप्रैल 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार चव्हान अजय कुमार बी (सं. 15390063एम अब जेसी-377389एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार सत्येश्वर भूनिया (सं. 15386833डब्ल्यू अब जेसी-377458एच), 01 अगस्त 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार यू सुब्बा राव (सं. 15368058एफ अब जेसी-377390एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार अशोक कुमार (सं. 15399970एन अब जेसी-377391पी), 01 जुलाई 2007

हवलदार रविन सिंह (सं. 15399437वाई अब जेसी-377392एक्स), 01 जुलाई 2007

हवलदार श्री निवासाह जी (सं. 15661066डब्ल्यू अब जेसी-377393ए), 01 जुलाई 2007

हवलदार सिब शंकर साहू (सं. 15392375एफ अब जेसी-377395एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार एन पी सिंह (सं. 15369965एन अब जेसी-377459एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार रूप सिंह (सं. 15388117के अब जेसी-377396एन), 01 जुलाई 2007

हवलदार पी एन चन्द्रकान्त (सं. 15382484ए अब जेसी-377397डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

हवलदार निराकार बेहरा (सं. 15369659वाई अब जेसी-377460ए), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार संजीव कुमार (सं. 153942659वाई अब जेसी-377462एल), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार कामत चिसुन्दरम के (सं. 15383618ए अब जेसी-377466एफ), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मरून सी (सं. 15661042एम अब जेसी-377468एम), 01 जुलाई 2007

हवलदार श्रीनिवासुलू रेड्डी एम (सं. 15661414एम अब जेसी-377469पी), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार टी पी पांडेय (सं. 15371719एफ अब जेसी-377470के), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार पी पलानी (सं. 15382021एल अब जेसी-377471एम), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार यादविन्दर कुमार (सं. 15386894एन अब जेसी-377474ए), 01 जुलाई 2007

हवलदार सेधु माधवन के एन (सं. 15382200एल अब जेसी-377477एन), 01 जुलाई 2007

हवलदार सुतर कल्याण लक्ष्मन (सं. 15384341वाई अब जेसी-377478डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार नीरज रंजन (सं. 15376679पी अब जेसी-377479वाई), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार ए के द्विवेदी (सं. 15385272ए अब जेसी-377480एन), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार के गोपाल शर्मा (सं. 15394692एफ अब जेसी-377481एन), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मनीष कुमार (सं. 15394290के अब जेसी-377482वाई),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार रंजीत सिंह (सं. 15399221एक्स अब जेसी-377484के),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार डी एस बिष्ट (सं. 15371927डब्ल्यू अब जेसी-377485एम),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बीरेन्द्र रावत (सं. 15393439एन अब जेसी-377486पी),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार शशी कुमार के (सं. 15387186एन अब जेसी-377488ए),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार आर विजया बास्करन (सं. 15393888एच अब
जेसी-377489एच), 01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एस सी जोशी (सं. 15388489पी अब जेसी-377490एक्स),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार बैजू पी (सं. 15374797के अब जेसी-377491ए), 01 सितम्बर
2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एस एल राव (सं. 15388251पी अब जेसी-377492एच),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार एम के ओझा (सं. 15390308एक्स अब जेसी-377493एल),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मुरुगन आर (सं. 15387068ए अब जेसी-377494एन),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जी सी हनरा (सं. 15392407वाई अब जेसी-377495डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2007

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जुलाई 2007 से दी जायेगी)

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 151, दिनांक 28 फरवरी 2008--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं:--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

स्थायी सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार दलीप सिंह (जेसी-840258एक्स), 01 नवम्बर 2007

सूबेदार चन्द्र भान (जेसी-840259ए), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार चन्दन लाल (जेसी-143714डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार हीरा लाल कारकी (जेसी-163400डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

सूबेदार थोरू राम (जेसी-235521डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-578093पी), 01 अक्टूबर 2007

नायब सूबेदार नमन सिंह थापा (जेसी-623021ए), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-528296एच), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार गुरमेज सिंह (जेसी-578512एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार कवाडे दिलीप दत्ता राव (जेसी-172733के), 01 नवम्बर
2007

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-528600एफ), 01 नवम्बर 2007

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह (जेसी-177522एल), 01 नवम्बर 2007

स्थायी सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार जमादार नागप्पा (जेसी-841066एम), 01 दिसम्बर
2007

नायब सूबेदार भगवाना राम (जेसी-841076डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2007

नायब सूबेदार सिधान (जेसी-841079के), 01 दिसम्बर 2007

सेना शाखा

नायब सूबेदार हुकम सिंह (जेसी-841081एफ), 01 दिसम्बर 2007

सं. 152, दिनांक 28 फरवरी 2008--

नायब सूबेदार जोगिन्दर पाल (जेसी-841084पी), 01 दिसम्बर 2007

शुद्धि पत्र

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जेसी-841100एफ), 01 दिसम्बर 2007

भारत के राजपत्र संख्या 312 में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक नियमित सेनास्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-164487पी), 01 दिसम्बर 2007

आई सी : 46949 विक्रम सिंह, एसी

स्थाई सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

के सामने

नायब सूबेदार (लिपिक) जी राम दोस (जेसी-841484एफ),

--16 दिसम्बर 2004--

01 अक्टूबर 2007

के बदले

नायब सूबेदार (लिपिक) एम करिया पेरूमाल (जेसी-841485के),

पढ़ा जाये : 22 अप्रैल 2003

01 दिसम्बर 2007

प्रदीप कुमार

अवर सचिव

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd March 2008

No. 133, dated 21st February, 2008.—The President is pleased to appoint Shri Satyanarayana Dash, IAS(KL:73) on transfer from Planning Commission, as Secretary, Department of Ex-Servicemen's Welfare in the Ministry of Defence w.e.f. 31-12-2007 (afternoon).

The President is pleased to appoint Shri Sanjay Prasad, IAS(GJ:86), Director, Ministry of Defence, as Counsellor (Coord), Embassy of India, Moscow, with effect from the forenoon of 28th December, 2007 for a period of 3 (three) years or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Dapindra Singh Chawla, IRS(IT:89) on transfer from the Office of the Chief Commissioner of Income Tax, New Delhi, as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 1-2-2008(FN) up to 31-1-2013 or until further orders, whichever is earlier.

The President is pleased to appoint Shri Rohtash Singh, CSS, Under Secretary, Ministry of Finance, Deptt. of Revenue to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the Ministry of Defence, purely on ad hoc basis w.e.f. 1-2-2008(FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/4/2007-CS.I dated the 10th January, 2008.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions:—

(i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.

(ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri N.C. Gaur, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad hoc basis w.e.f. 14-12-2007(FN) until further orders in terms of DOP&T Order No. 4/4/2007-CS.I dated the 14th December, 2007.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions:—

(i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.

(ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint Shri S. D. Paul, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS, in the same Ministry, purely on ad hoc basis w.e.f. 1-2-2008(FN) until further

orders in terms of DOP&T Order No. 4/4/2007-CS.I dated the 10th January, 2008.

2. The appointment of the above officer as Deputy Secretary (ad hoc) in the Ministry of Defence, is subject to following conditions:—

(i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS.

(ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

The President is pleased to appoint the following Assistants borne on the CSS cadre of Ministry of Defence as Section Officer on ad hoc basis in the same Ministry in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 3-12-2007(FN) for a period up to 31-12-2007 or until further orders, whichever is earlier :—

Smt. Neelam Bhutani

Shri Jogesh Chandra

Shri S. K. Sikka

Shri Virender Kumar

2. The above appointments will be subject to the following conditions :—

(i) The ad hoc appointments shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

(ii) They will be reverted to the Assistants' Grade on availability of regular Section Officer through normal channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

Consequent on inclusion of his name in the Select List (Seniority Quota) of Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS for the year 2004, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar, Stenographer Grade 'C' borne on the cadre of Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 21st January, 2008 until further orders.

S K DEB
Under Secy

(FINANCE DIVISION)

No. 134, dated 21st February, 2008.—The President is pleased to appoint Dr. Dinesh Kumar Tyagi, Director IFS(MH:87) in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 17-12-2007 (FN) until further orders.

The President is pleased to appoint Shri Ved Parkash IRAS(87) in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 7-12-2007 (FN) until further orders.

RAMESH KUMAR
Director(E)

(ARMY BRANCH)

No. 135, dated 21st February, 2008.—The President is pleased to make the following appointment :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Nongmeikapam Danish (TA-42681), Infantry, 14 May 2007 (FN)

Jitendra Jeet Singh (TA-42682), Infantry, 19 May 2007 (FN)

Kapil Dev Pandey (TA-42683), Infantry, 12 Jun 2007 (AN)

Rajesh Bhardwaj (TA-42684), Infantry, 8 Jun 2007 (FN)

Shrihari Kugaji (TA-42685), Infantry, 16 Jun 2007 (FN)

Sanjiv Kaura (TA-42689), Infantry, 4 Aug 2007 (FN)

Sachin Rana (TA-42690), Infantry, 20 Aug 2007 (FN)

JAI RAJ
Under Secy

(ARMY BRANCH)

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 136, dated 22nd February, 2008.—The President is pleased to extend the appointment Shri Devi Dayal, (DOB 14 May 1953) Section Officer under Rule 7 (8) of AFHQ Civil Service Rules, 2001 for the periods mentioned below or till regular incumbents become available whichever is earlier:—

Period

24 February 2006 to 23 August 2006

24 August 2006 to 23 February 2007

24 February 2007 to 23 August 2007

2. The appointment is made purely as a stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

3. There will be no claim for regular promotion/appointment on the basis of promotion granted under Rule 7(8) of AFHQ CSR 2001 and the period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of Dy. Director.

SHANKAR SINGH
Deputy Chief Administrative Officer

(ARMY BRANCH)

No. 137, dated 22nd February, 2008.—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the active list in the rank and date specified.

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Major Bahadur Singh Bisht (JC-212934N), Formerly Kumaon Regt, 6 Jan 2007

Sub Major Jitendra Singh Pundhir (JC-2986M), Formerly 105 Inf Bn, (TA) 6 Jan 2007

In the rank of Subedar (GD)

Sub Swaran Dass (JC-578341A), Formerly JAK Rif, 7 Oct 2006

Sub Bastiram Yadava (JC-210884P), Formerly Para Regt, 6 Jan 2007

Sub Govind Singh SM (JC-538738K), Formerly Para Regt, 6 Jan 2007

Sub Bhakta Bahadur Thapa (JC-617220X), Formerly 5 GR, 7 Jan 2007

Sub Manbar Singh Rawat (JC-528816H), Formerly Garh Rif, 8 Apr 2007

Sub Mal Singh Khangarot (JC-184976F), Formerly Raj Rif, 8 Apr 2007

Sub Budh Ram Barala (JC-185461N), Formerly Para Regt, 8 Apr 2007

Sub Santa Kumar Limbu (JC-194708L), Formerly 11GR, 8 Apr 2007

Sub Poom Singh (JC-262532M), Formerly Arty Regt, 8 Apr 2007

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Mahabir Singh (JC-448364X), Formerly Grenadiers, 6 Jan 2007

Nb Sub Satya Pal Singh (JC-528833H), Formerly Garh Rif, 6 Jan 2007

Nb Sub Pritpal Singh (JC-428643F), Formerly Punjab Regt, 6 Jan 2007

Nb Sub Charanjit Singh (JC-508209H), Formerly Sikh LI, 12 Jan 2007

Nb Sub Ratan Singh (JC-238168A), Formerly Armd Corps, 8 Apr 2007

Nb Sub Bache Singh (JC-538634H), Formerly Kumaon Regt, 8 Apr 2007

Nb Sub Sankaran V (JC-438527M), Formerly Madras Regt, 8 Apr 2007

Nb Sub Ram Saroop (JC-402599L), Formerly Brigade of the Guards, 8 Apr 2007

PRADEEP KUMAR
Under Secy

No. 138, dated 22nd February, 2008.—The President is pleased to grant honorary rank of Major/Lt/Chief Officer/Pilot Officer/Lt Cdr in the NCC to the following Ex-Associate NCC Officers, from the dates mentioned against the names of each of them :—

NCC No., Rank, Name, and Dte	Honorary Rank awarded	Date from which awarded
NCCJ/13620, Chief Officer Krishna Kumar Sharma NCC Dte UP	Lieutenant	30 June 2006
NCC/13854, Major Soran Singh NCC Dte UP	Major	3 July 2006
NCC/14406, Major SM Mohan NCC Dte TN P&AN	Major	30 June 2006
NCC/14083, Major K Vidhyasagar NCC Dte TN P&AN	Major	21 May 2006
NCCN/16186, Lt Cdr GS Narasimhan NCC Dte Maharashtra	Lt Cdr	7 June 2007
NCCJ/6267, Chief Officer Brj Kishor Dubey NCC Dte MP&C	Lieutenant	9 June 2007
NCC/16765, Major Brojendra Narayan Patnaik NCC Dte Orissa	Major	6 August 2006
NCCJ/61594, Chief Officer Suryamani Nayak NCC Dte Orissa	Lieutenant	24 September 2006
NCC/17250, Major Dr. JP Singh NCC Dte UP	Major	30 June 2007

U K DHAR
Brig
Dy Dir Gen(MS)

No. 139, dated 22nd February, 2008.—Consequent on being approved for appointment as Secretary, Central Information Commission in the rank and pay of Additional Secretary vice Smt. Rita Sinha, IAS(UP:73), the services of Shri Mohammed Haleem Khan, IAS(UP:77), Joint Secretary & Additional Financial Adviser in the Ministry of Defence (Finance) are pleased at the disposal of the Central Information Commission w.e.f. 18-1-2008(FN).

M S CHADHA
Deputy Secretary

(AIR BRANCH)

No. 140, dated 25th February, 2008.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers w.e.f. the date stated against their names who were granted Permanent Commission (on probation).

INDIAN AIR FORCE

FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr. Sparsh Singhal (28188), Natu Ajay Yashavant (28192), Dhokane Ajit (28198), Siddarth Kumar (28208), Jestin Elias (28212) w.e.f. 18 Dec 04.

N PARANAN
Wg Cdr
JDPO-3(D)

(AIR BRANCH)

No. 141, dated 25th February, 2008.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

INDIAN AIR FORCE

(LGS BRANCH)

To Be Substantive Gp Capt (LGS Branch)

Rank Name, Number BR, Date

Gp Capt (ACTG) AK Mathur (15754), LGS, 1 Nov, 2006

[His name will appear below Gp Capt RP George (15751) LGS in the combined gradation list].

K V SANKAR
Joint Dir of Personnel (Officers)-2(B)

AIR HEADQUARTERS

No. 142, dated 25th February, 2008.—The President is pleased to promote undermentioned Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary on

temporary basis (Group 'B' Gazetted in the pay scale of Rs. 6,500—10,500/-) with effect from the dates as shown against their names or till persons from select list become available or till the individual retires, whichever is earlier :—

Name	Promotion Date	
	From	To
S/Shri/Smt.		
Joginder Kaur Nagi	30 Apr 2007	30 Jun 2007
NK Chopra	19 Jun 2007	30 Jun 2007
RK Madan	30 May 2007	30 Jun 2007
Krishna Sardana	30 May 2007	30 Jun 2007
RK Dewani	11 Jun 2007	30 Jun 2007

2. The promotion shall be subjected to the following conditions :—

(a) Their appointment is purely on temporary basis and shall be terminated on administrative ground without issuing any prior notice to the effect.

(b) The officers shall have no claim for regular promotion/ appointment on the basis of this promotion granted now nor will their period of such appointment count towards seniority in the grade of PS.

SHANKAR SINGH
Dy Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 143, dated 26th February, 2008.—The President is pleased to promote the undermentioned Dy. Directors as Joint Directors (in-situ) w.e.f. 03 Jul 2000 :—

Name, Date of Birth

Smt. S Chellam, 23 Mar, 1950

Shri P S Rathore, 01 May, 1953

Shri R Natrajan, 15 Jul, 1954

Shri R Trilochan Rout, 09 Apr, 1959

Shri Sukumar Chakravarty, 30 Nov, 1953

Shri Anil Malhotra, 02 Dec, 1955

Shri P K Shukla, 30 Mar, 1956

Smt Poonam Goila, 20 Jul, 1959

Shri S C Minocha, 06 Oct, 1952

Shri S K Shrivastava, 08 Jul, 1953

Shri G V Singh, 30 May, 1953

2. The promotion of the above named officers is subject to the following conditions :—

(a) The in-situ appointment to the higher grade of Jt. Dir. will be personal to the incumbent.

(b) The appointment against the upgraded post of Joint Dir. will not entitle the officer to any claim for regular appointment as Jt. Director or seniority in the grade of Joint Director.

(c) The upgraded post will automatically revert to the original level as and when the incumbents of such posts vacate them on their promotion against actual regular vacancy in the higher grade or on their retirement, resignation, etc.

SHANKAR SINGH
Deputy Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

No. 144, dated 26th February, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Air Cmde (& equivalent) to be AVM (& equivalent)

H Subramanya (MR-02960X) (AF-12910), 01 May, 2007 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 April, 2007

PAWAN KAPOOR
Col
Dir AFMS(P)

ARMY BRANCH

No. 145, dated 26th February, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SPECIAL COMMISSION

Capt to be Maj

SC No., Name, Arm, Subs Maj w.e.f

SC00313, Vinod Kumar, AC, 09 Jun, 2007

SC00317, Sankaranarayanan T, ARTY, 09 Jun, 2007

SC00363, Bhupinder Singh, INF, 09 Jun, 2007

SC00367, Sadu Ram Bhakar, ASC, 09 Dec, 2007

SC00395, Harish Candra Bisht, AOC, 09 Jun, 2007

SC No., Name and Arm

SC00397, Surendra Singh, AAD

SC00398, Venkatesan R, EME

SC00399, Gnana Sekar K, AC

SC00400, Sanjay Kumar, SIGS

SC00401, Sunder Bahadur Chhetri, INF

SC00402, Dinesh Kumar Pathak, AOC

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

SC00403, Rohtash, ENGRS

Capt to be Major

SC00404, Raj Kapoor, SIGS

SS No., Name, Arm, Course, Revised date of Seniority for Promotion and Subs Major w.e.f.

SC00405, Ravinder Singh, AAD

SS-38423, Neeraj Kaushik, AC, SSC-69(NT), 04 Nov, 2000/04 Nov, 2006

SC00406, Prabhakaran K P, ARTY

SC00408, Satyanarayana K B, INF

WS No., Name, Arm, Course, Revised date of Seniority for Promotion, Date of Sub Major

SC00409, Satvinder Singh, INT

WS-00082, Sunita Yadav, ASC, WSESO-04 (NT), 20 Aug, 1995/16 Dec, 2004

SC00410, Balam Singh, AOC

SC00411, Senthil Kumar R, ARTY

WS-00523, Rita Deb, ENGRS, WSESO-16 (NT), 02 Sep, 2001/02 Sep, 2007

SC00412, Surendra Singh Negi, INF

SC00413, Dharmvir Singh, ARTY

LT to be Capt

SC00414, Sanjay Thapa, INF

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority and Date of Substantive rank of Capt

SC00415, Vinod Kumar, INF

SS-38891, Rabinder Singh Jamwal, SIGS, 07 Mar, 1999, SSC-14(T), 07 May, 1999/16 Dec, 2004

SC00416, Tondup Wangail, INF

SC00417, Joshi Padmadatt Bhuwan, INF

SS-38904, Deinesh Kumar Gupta, SIGS, 07 Mar, 1999, SSC-14(T), 07 May, 1999/16 Dec, 2004

SC00418, Sunil Kumar Tyagi, ENGRS

SC00419, N Thiagarajan, SIGS

SS-39367, Hemant Sharma, AC, 01 Sep, 2001, SSC-72(NT), 01 May, 2002/16 Dec, 2004

SC00420, Abdul Raheem, ASC

SS-39900, Mandeep Singh, EME, 07 Sep, 2002, SSC-74(NT), 07 May, 2003/07 May, 2005

SC00421, Vivek Moy Goswami, INF

SC00422, V Venkatesh, INF

SS-40249, Parvit Kumar Siwach, EME, 06 Sep, 2001, SSC-19(T), 06 Nov, 2001/16 Dec, 2004

SC00423, Dhian Singh, ARTY

SS-40260, Bhupender Singh Grewal, EME, 06 Sep, 2001, SSC-19(T), 06 Nov, 2001/16 Dec, 2004

SC00424, Harbhajan Singh, INF

SC00425, Haro Prasad Choudhary, ENGRS

SS-40261, Vikram Birra, EME, 06 Sep, 2001, SSC-19(T), 06 Nov, 2001/16 Dec, 2004

SC00426, Sunil Kumar GR, ARTY

SC00427, Ashok Kumar Tomar, EME

SS-40382, Rahul Dutt Sharma, SIGS, 06 Sep, 2003, SSC-76(NT), 06 May, 2004/06 May, 2006

SC00428, Vijay Thapa, INF

SC00429, Abdul Rasid, AC

SS-40526, Anuja Kumar Acharya, ENGRS, 20 Mar, 2002, SSC-20(T), 20 Apr, 2002/16 Dec, 2004

SC00430, Kapadnis Arun P, ARTY

PERMANENT COMMISSION (SL)

SC00431, Gurinder Singh Sandhu, EME

Capt to be Major

SC00432, Amar Jeet Singh, INF

SL No., Name, Arm and Subs Maj w.e.f.

SC00433, Vincent Lobo, ASC

4372, Raj Kumar Gurung, SL/TOAB, 16 Dec, 2004

SC00434, Sunil Kumar N P, EME

SC00435, Jaipal Singh Nagarkoti, MECH INF

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 146, dated 26th February, 2008.—The President is pleased to promote the following officers from existing grade w.e.f. 01 September, 2007 (F/N) as mentioned against each :—

Sl No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	S/Shri/Smt.				
1.	I Lakshmi	DLRL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
2.	K V Surender	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
3.	M Vani Rajya Lakshmi	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
4.	M Dwarka Nath	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
5.	C H Prameela	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
6.	K Sudhakar Babu	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
7.	Ashok Karwalkar	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
8.	G Ramesh Babu	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
9.	K Ramesh Babu	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
10.	C H Annapurnayya	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
11.	G Usha Kiran	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
12.	A Kiranmaie	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
13.	C H L B Srinivasa Sarma	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
14.	P Neelakanta Rao	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
15.	Y Venkateswara Rao	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
16.	G I Prem Sagar	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
17.	D Lingaiah	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
18.	C Prabhakara Chary	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
19.	K Ramesh	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
20.	Manthravadi Vijayalakshmi	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
21.	Meenakshi Sastry	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
22.	B Naga Veni	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
23.	P Vijayalakshmi	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
24.	G Girija	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
25.	Zubaida	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
26.	P V S Sastry	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
27.	A Kireetamma	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
28.	T S V Subrahmanyam	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
29.	A Varugheese Paul	NPOL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
30.	K S Pillai	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
31.	M Somasundaram	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
32.	Nirmala Jacob	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

1	2	3	4	5	6
33.	A Shanvas	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
34.	Suseela Annie Joseph	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
35.	George Thomas	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
36.	M R Chandran	NPOL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
37.	K J John	NPOL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
38.	Sukumariam K N	NPOL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
39.	Shyni Dinesh	NPOL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
40.	P G Mohanan	NPOL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
41.	Dr P C Pant	DMSRDE	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
42.	Desh Raj	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
43.	S C Agarwal	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
44.	Tilak Kumar Ganguli	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
45.	Ajai Narain Bajpai	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
46.	V S Sisodia	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
47.	S K Shakyawar	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
48.	Arun Vir Anand	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
49.	A K Srivastava	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
50.	Harjeet Singh	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
51.	Arun Kumar Mishra	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
52.	P Umamaheswar Reddy	RCI	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
53.	B Baludu	RCI	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
54.	N Ashok Kumar	RCI	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
55.	D Venugopal	RCI	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
56.	S K Mohinuddin Ahmed	RCI	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
57.	J Venketaswara Rao	RCI	TA 'C'	TO	Rs. 7,450-225-11,500/-
58.	A C Sivasankara Marar	NPOL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
59.	V R Suresh Babu	NPOL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
60.	M P Aleyamma	NPOL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
61.	P Suresh Kumar	NPOL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
62.	Laly Joseph	NPOL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
63.	Minakshi Basu	DIPAS	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
64.	Lalan Thakur	DIPAS	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
65.	Joginder Dey	DIPAS	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
66.	A K Gupta	DIPAS	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-

1	2	3	4	5	6
67.	Parveen Rajput	CFEES	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
68.	Rashmi Bhalla	CFEES	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
69.	K Jhansi Lakshmi	RCI	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
70.	V Aruna Kumari	RCI	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
71.	V Ashok	RCI	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
72.	S K Tiwari	RCI	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
73.	A Varalakshmi	RCI	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
74.	G V Reddy	RCI	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
75.	P Seena Reddy	RCI	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
76.	Srinibaso Goud	RCI	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
77.	P Satyanarayana Rao	RCI	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
78.	B V A Krishna	DLRL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
79.	B Y Keshava Dass	DLRL	TO 'C'	TO 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
80.	P R Lakshmi	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
81.	N Sree Ramulu	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
82.	K Varahala Rao	DLRL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
83.	A V Subba Raju	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
84.	G Surya Kumari	DLRL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-

B B SHARMA
Dy Director (Pers-1)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 147, dated 27th February, 2008—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brigadier

Rank Name, IC No., Arm, D. O. Subs Brig

Col V P Munjal, IC27949, EME, 01 October, 2006 with seniority from 12 November, 2003 without effect on pay and pension

Col T K Das, IC30056, SIGS, 01 October, 2006 with seniority from 16 January, 2004 without effect on pay and pension

Col Pramod Kumar, IC31553, EME, 01 October, 2006 with seniority from 16 January, 2004 without effect on pay and pension

Col K K Marwah, IC31560, EME, 04 October, 2006 with seniority from 09 April, 2004 without effect on pay and pension

N K PHUKAN
AMS/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 148, Dated 27th February, 2008—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Naib Subedar

BHM P Kundan Singh (No. 4179034A now JC-826189F), 05 October, 2007/01 October, 2007*

BHM Siraj Khan (No. 6380790P now JC-826190W), 01 October, 2007

BHM Yash Pal (No. 14495529M now JC-826191Y), 01 October, 2007

BHM Vivekananda Rawalo (No. 15101312K now JC-826192F), 15 November, 2007/01 November, 2007*

BHM Ashok Kumar (No. 9086781N now JC-826193K), 08 November, 2007/01 November, 2007*

To be Substantive Subedar

Sub Br Hiremath (JC-826141N), 01 November, 2007

Sub Arjun Singh (JC-826142W), 01 November, 2007
 Sub Lal Bahadur Rana (JC-826140L), 01 December, 2007
 Sub R H Magdum (JC-826143Y), 01 December, 2007
 Sub Maj Kariappa K A (JC-826073L), 01 December, 2007

P P SINGH
 Under Secretary

No. 149, dated 27th February, 2008—The President is pleased to make following promotions :—

REGULAR ARMY

CORPS OF ENGINEERS

BENGAL ENGINEER GROUP

To be Naib Subedar (Religious Teacher)

RRT Shri Ram Chaturvedi (No. 329915N now JC-329915N), 02 December, 2006

LNK Harpal Singh (No. 4475508X now JC-329968M), 02 December, 2006

To be Nb Sub (GD)

Hav Mata Prasad (No. 1470145M now JC-338132W), 05 June, 2007S

Hav Surender Singh (No. 1471606X now JC-338133Y), 18 March, 2007#

Hav Vinod Kumar (No. 1473826A now JC-3381134F), 26 June, 2007&

Hav Mirajul Rahaman (No. 1494226L now JC-338135K), 28 September, 2007%

Hav Sushil Kumar Sah (No. 1477635H now JC-338136M), 10 September, 2007%

Hav Hardip Singh (No. 1473859L now JC-338137P), 07 September, 2007%

Hav Ved Prakash Jaswal (No. 15335371M now JC-338138X), 07 Septemeber, 2007%

Hav Guna Nand Nath (No. 1475404W now JC-338139A), 01 August, 2007%

Hav Pal Singh (No. 1475562H now JC-338140P), 01 August, 2007%

Hav Sarbjit Singh (No. 1475824N now JC-338141X), 01 August, 2007%

Hav Jasbir Singh (No. 1476007F now JC-338142A), 03 September, 2007@

Hav Umesh Chandra (No. 1476009M now JC-338143H), 03 September, 2007@

Hav Kundan Singh Garia (No. 1476060M now JC-338144L), 01 September, 2007@

Hav Har Singh (No. 1476164N now JC-338145N), 01 October, 2007@

Hav Dharama Nand (No. 1476218K now JC-338146W), 21 September, 2007@

Hav Umesh (No. 1476227L now JC-338147Y), 19 September, 2007@

Hav Surja Deb Dey (No. 1472940L now JC-338148F), 17 September, 2007@

Hav Surender Singh (No. 1473390A now JC-338149K), 01 October, 2007@

Hav Dalbir Singh Rawat (No. 1475019K now JC-338150Y), 19 October, 2007*

Hav Santosh Kumar (No. 1476126X now JC-338151F), 16 October, 2007*

Hav Manjit Singh (No. 1476401M now JC-338152K), 20 October, 2007*

Hav Dandi Nath Kalita (No. 1469198Y now JC-338153M), 07 November, 2007**

Hav Sohan Singh (No. 1469151N now JC-338154P), 02 November, 2007**

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Mahendra Pal Singh (No. 1472368H now JC-338155X), 17 October, 2007+

Hav Bahadur Singh (No. 1468741A now JC-338156A), 17 September, 2007&

Hav George Kutty B M (No. 1468244W now JC-338157H), 16 August, 2007&

Hav Dipankar Battacharya (No. 1473256P now JC-338158L), 05 September, 2007&

Hav Anil Kumar (No. 1474380H now JC-338159N), 31 August, 2007++

Hav Ran Singh (No. 1474395L now JC-338160H), 11 July, 2007++

Hav Jameel Ahmad (No. 1474390M now JC-338161L), 24 August, 2007++

Hav Swapan Kumar Muhuri (No. 1474449F now JC-338162N), 04 August, 2007++

Hav Bikash Nag (No. 1474450W now JC-338163W), 14 August, 2007%

Hav Deba Prasad Mukherjee (No. 1474438P now JC-338164Y), 14 August, 2007%

Hav Brij Kant Mishra (No. 1474435F now JC-338165F), 11 September, 2007%

Hav Hruda Nanda Swain (No. 1474482Y now JC-338166K), 20 September, 2007@

Hav Krishan Lal (No. 1474496Y now JC-338167M), 01 September, 2007@

Hav Bikash Chandra Das (No. 1474517K now JC-338168P), 20 September, 2007@

Hav Sunil Kumar Singh (No. 1474519P now JC-338169X), 01 September, 2007@

Hav Nil Kamal Mondal (No. 1474570P now JC-338170M), 13 September, 2007@

Hav Raj Pal Singh (No. 1474580Y now JC-338171P), 14 September, 2007@

Hav Keshaw Ram Pandey (No. 1474613Y now JC-338172X), 27 October, 2007*

Hav Ram Swaroop (No. 1474682P now JC-338173A), 01 November, 2007*

Hav Joygeswar Gogoi (No. 1474685H now JC-338174H), 27 October, 2007*

Hav Pabitra Gogi (No. 1474687N now JC-338175L), 05 November, 2007*

Hav Munna Seth (No. 1474691W now JC-338176N), 01 November, 2007**

Hav Bibeka Nanda Paul (No. 1474705L now JC-338177W), 01 November, 2007**

Hav Soumendu Das (No. 1474693F now JC-338178Y), 06 November, 2007**

Hav Ajit Kumar Ghosh (No. 1474697X now JC-338179F), 01 November, 2007**

Hav Amar Nath Yadav (No. 1474703A now JC-338180W), 02 November, 2007**

+(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2006 without effect on pay & allces).

\$(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 2007 without effect on pay & allces).

#(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 2007 without effect on pay & allces).

&(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 2007 without effect on pay & allces).

++(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jul 2007 without effect on pay & allces).

%(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Aug 2007 without effect on pay & allces).

@(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 2007 without effect on pay & allces).

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2007 without effect on pay & allces).

**(Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 2007 without effect on pay & allces).

BOMBAY ENGINEER GROUP

To be Nb Sub (GD)

Hav(GD) Major Singh (No. 1570603M now JC-350591F), 08 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jun 2006 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Balwinder Singh (No. 1567825W now JC-350592K), 10 October, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Mewa Singh (No. 1571377M now JC-350597H), 25 October, 2007

Hav(GD) Abdul Gani Mansuri (No. 1571612A now JC-350598L), 05 October, 2007

Hav(GD) Munir Ahmed Khan (No. 1559866L now JC-350599N), 12 October, 2007

Hav(GD) Khem Chand (No. 1567604K now JC-350600X), 12 October, 2007

Hav(GD) Tilak Raj (No. 1567760N now JC-350601A), 04 October, 2007

Hav(GD) Navtej Singh (No. 1569177X now JC-350602H), 01 October, 2007

Hav(GD) Mohammad Adalat (No. 1569539N now JC-350603L), 25 September, 2007

Hav(GD) Gurmit Singh (No. 1573157F now JC-350604N), 21 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Satpal Singh (No. 1567314M now JC-350608K), 31 October, 2007

Hav(GD) Avtar Singh (No. 1567438F now JC-350609M), 06 November, 2007

Hav(GD) Prem Singh (No. 1567938Y now JC-350610F), 06 November, 2007

Hav(GD) Amarjit Singh (No. 1567949L now JC-350611K), 08 November, 2007

Hav(GD) More Vijay Vasudeo (No. 1568798K now JC-350612M), 07 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Malkiat Singh (No. 1569870F now JC-350613P), 07 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 10 Oct 2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Satwinder Singh (No. 1567061HF now JC-350617L), 18 October, 2007

Hav(GD) Ashok Kumar Pandey (No. 1567572M now JC-350618N), 28 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Manjit Singh (No. 1559395H now JC-350620L),
08 November, 2007

Hav(GD) Kulwant Singh (No. 1567778K now
JC-350621N), 28 November, 2007

Hav(GD) Mohammad Shakeel (No. 1568745L now
JC-350622W), 07 December, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct
2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Satpal Singh (No. 1567806L now JC-350626M),
21 November, 2007

Hav(GD) Hiralal Hagraji Khadse (No. 1568117W now
JC-350627P), 30 November, 2007

Hav(GD) Baldev Singh (No. 1568452A now JC-350628X),
20 December, 2007

Hav(GD) Piar Chand (No. 1572213H now JC-350629A),
01 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov
2007 without effect on pay & allces)

Hav(GD) Balkar Singh (No. 1558497M now JC-350638F),
14 December, 2007

Hav(GD) Balbir Singh (No. 1567126L now JC-350639K),
20 December, 2007

Hav(GD) Mohmad Jahir Khan (No. 1567305L now
JC-350640Y), 18 December, 2007

Hav(GD) Sadanand Sakharan Sawant (No. 1567385N
now JC-350641F), 24 December, 2007

Hav(GD) Harinath Prasad (No. 1567981A now
JC-350642K), 18 December, 2007

Hav(GD) Mahamud (No. 1568289L now JC-350643M),
25 December, 2007

Hav(GD) Pramod Kumar Singh (No. 1569484P now
JC-350644P), 19 December, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Dec
2007 without effect on pay & allces)

To be Nb Sub (CLK GD)

Hav(Clk GD) Dayanand (No. 1576546M now
JC-350593M), 12 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 21 Apr
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Ramashrya Tiwari (No. 1576871M now
JC-350594P), 10 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 07 Jul 2007
without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Shaitan Singh Yadav (No. 1577094F now
JC-350595X), 28 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Aug
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Sisodiya Bhamar Sinh Gambhir Sinh
(No. 1578915X now JC-350596A), 14 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Chandi Ram (No. 1576847W now
JC-350605W), 19 November, 2007

Hav(Clk GD) Ajay Kumar (No. 1576966M now
JC-350606Y), 17 November, 2007

Hav(Clk GD) Balbeer Singh Chandel (No. 1577587H now
JC-350607F), 06 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Lakhwinder Singh (No. 1578412M now
JC-350614X), 06 November, 2007

Hav(Clk GD) Phalke Hambirrao Tukaram (No. 1578929X
now JC-350615A), 14 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Yougander Singh (No. 1576912L now
JC-350616H), 21 August, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 07 Jul 2007
without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Jiwan Ram (No. 1577352W now
JC-350619W), 05 December, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) S Suresh (No. 1574337W now JC-350623Y),
10 November, 2007

Hav(Clk GD) Keshav Prasad (No. 1576171Y now
JC-350624F), 10 November, 2007

Hav(Clk GD) Ajit Krishna Biswas (No. 1578751M now
JC-350625K), 26 November, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Prakash Chandra Rajput (No. 1575152F
now JC-350630P), 15 December, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 20 Nov
2007 without effect on pay & allces)

Hav(Clk GD) Kadam Sudam Vasantrao (No. 1578937W
now JC-350631X), 24 December, 2007

Hav(Clk GD) Naykinde Suryakant Nilakant (No. 1578944M
now JC-350632A), 07 December, 2007

Hav(Clk GD) Nirmal Thakur (No. 1574849H now
JC-350633H), 10 December, 2007

Hav(Clk GD) Radhakrishnan V (No. 1578951H now
JC-350634L), 07 December, 2007

Hav(Clk GD) Jose V J (No. 1578953N now JC-350635N),
10 December, 2007

Hav(Clk GD) Naresh Kumar Panwar (No. 1579021N now
JC-350636W), 08 December, 2007

Hav(Clk GD) K Murugan (No. 1579220F now
JC-350637Y), 07 December, 2007

ALKA JOSHI
Under Secy

No. 150, dated 28th February, 2008.—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Nb Sub

Hav Abbobacker T (No. 15157933P now JC-270944H),
03 September, 2007/*15 December, 2006

RHM Mohinder Singh (No. 15106071Y now JC-270945L),
24 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Mallikarjun Goud Patil (No. 14410107M now
JC-270946N), 26 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Naresh Kumar (No. 14417890L now JC-270947W),
11 October, 2007

RHM Shegavi Koshiling Sidaniga (No. 14407885M now
JC-270948Y), 31 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Patil Ram Das Nivruti (No. 14411842P now
JC-270949F), 17 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Lalam Suri Babu (No. 14420645N now
JC-270950W), 21 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Pote Kisan Dhanaji (No. 14403501P now
JC-270951Y), 17 October, 2007/*11 October, 2007

RHM Naresh Kumar (No. 14414468H now
JC-270952F), 31 October, 2007/*11 October, 2007

RHM K Chendra Sekhar (No. 15120706X now
JC-270953K), 17 October, 2007/*11 October, 2007

Hav Jhandu Singh (No. 14497951H now JC-270954M),
01 May, 2007/*21 July, 2006

Hav Sumesh Tana Bhagat (No. 14479913K now
JC-270955P), 30 July, 2007/*01 May, 2007

Hav Hemantu Kumar Nath (No. 14489317L now
JC-270956X), 05 August, 2007/*01 June, 2007

Hav Bahabir (No. 14385251N now JC-270957A),
15 October, 2007/*16 June, 2007

Hav Diwakr Pratap Singh (No. 14389684H now
JC-270958H), 24 August, 2007/*28 July, 2007

Hav Vikram Singh Shahi (No. 14486978A now
JC-270959L), 30 August, 2007/*02 August, 2007

BHM K Vellu Samy (No. 15108584M now JC-270960A),
15 September, 2007/*10 August, 2007

Hav Sukhwinder Singh (No. 14483046H now JC-270961H),
24 October, 2007/*18 August, 2007

Hav Yash Paul (No. 14372095W now JC-270962L),
13 November, 2007/*23 August, 2007

Hav M Murgan (No. 14398020W now JC-270963N),
29 October, 2007/*01 September, 2007

Hav Gurmit Singh (No. 14382947M now JC-270964W),
11 September, 2007/*01 September, 2007

Hav Girish Kumar Singh (No. 14389688Y now
JC-270965Y), 22 October, 2007/*11 September, 2007

Hav Balwant Singh (No. 14377748W now JC-270966F),
17 October, 2007/*15 September, 2007

Hav Vadala Mudi Chenchiah Naidu (No. 14485255Y
now JC-270967K), 08 October, 2007/*04 October, 2007

Hav Jesudas G (No. 14489424M now JC-270968M),
26 October, 2007/*04 October, 2007

Hav Shashi Bhushan Sharma (No. 15117799M now
JC-270969P), 01 November, 2007

(*Gtd Seniority wef)

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Malkit Singh (JC-265992Y), 06 August, 2007/
*01 January, 2007

Nb Sub Vijayan Pillai C (JC-268256M), 15 September,
2007/*01 April, 2007

Nb Sub Suresh Baboo (JC-266409L), 07 August, 2007/
*01 April, 2007

Nb Sub Puran Singh (JC-266998M), 04 August, 2007/
*20 May, 2007

Nb Sub Purushothaman M (JC-266460L), 05 September,
2007/*01 August, 2007

Nb Sub Avtar Singh (JC-267817H), 18 October, 2007/
*01 August, 2007

Nb Sub Gurdip Singh (JC-268060X), 18 October, 2007/
*01 March, 2007

Nb Sub A Nelson (JC-268225L), 05 October, 2007/
*01 August, 2007

Nb Sub Inderjet Singh (JC-268486Y), 15 September, 2007/
*01 August, 2007

Nb Sub Rajan Y (JC-268690X), 30 October, 2007/
*06 August, 2007

Nb Sub Bharat Singh (JC-268962M), 08 October, 2007/
*10 August, 2007

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-268133Y), 11 October, 2007/
*30 August, 2007

Nb Sub Mukat Ram (JC-268564L), 11 October, 2007/
*30 August, 2007

Nb Sub Kuldeep Raj Sharma (JC-265938L), 01 November, 2007/*01 September, 2007

Nb Sub Sardar Singh (JC-266945N), 29 October, 2007/*01 September, 2007

Nb Sub Bhup Singh Yadav (JC-267047M), 25 September, 2007/*01 September, 2007

Nb Sub Punvasi Yadav (JC-268814F), 07 November, 2007/*17 September, 2007

Nb Sub Randhir Singh (JC-267188W), 28 September, 2007/*30 August, 2007

Nb Sub Mahesh Babu (JC-266065X), 01 January, 2007

Nb Sub Shyamvir (JC-267199L), 01 December, 2007

Nb Sub Ram Phal Yadav (JC-264952L), 26 April, 2007/*01 April, 2007

Nb Sub Namjan Aihd (JC-267208Y), 31 August, 2006

Nb Sub S Raman (JC-267671A), 01 February, 2007

Nb Sub Harbans Singh (JC-267812K), 04 October, 2006/*01 October, 2006

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-266430N), 10 August, 2007/*01 July, 2007

Nb Sub Santosh Kumar Sharma (JC-266985W), 08 June, 2007/*01 May, 2007

Nb Sub Ram Bahadur Singh (JC-266203N), 27 September, 2007/*01 March, 2007

Nb Sub Patore Gopinath Gangadhar (JC-264155A), 01 January, 2006

Nb Sub Awadhesh Kumar Dubey (JC-267073H), 14 January, 2007/*01 January, 2007

Nb Sub Hawa Singh (JC-267882H), 16 January, 2007/*01 January, 2007

Nb Sub Umesh Chandra (JC-266981Y), 17 October, 2007/*01 August, 2007

Nb Sub Suresh Singh (JC-264575A), 07 April, 2007/*01 March, 2007

(*Gtd Seniority wef)

CORPS OF SIGNALS

To be Naib Subedar (Y of S)

Hav M P Yadava (No. 15367455N now JC-377430M), 01 July, 2007

Hav Nanda Kumar R (No. 15370924W now JC-377431L), 01 July, 2007

Hav K Kataraki (No. 15366111H now JC-377450W), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav M D Sharma (No. 15377009A now JC-377451Y), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Mithilesh Prasad (No. 15382383M now JC-377453K), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Harpal Singh (No. 15370993M now JC-377433W), 01 July, 2007

Hav Satendra Kumar (No. 15380388M now JC-377434Y), 01 July, 2007

Hav Shabbir Alam (No. 15373416L now JC-377435P), 01 July, 2007

Hav K S Bisht (No. 15376908P now JC-377454M), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Sharma (No. 15375729H now JC-377455R), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav O N Mishra (No. 15382110K now JC-377456X), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (F of S)

Hav Jibin Joseph (No. 15393254M now JC-376978F), 01 January, 2007

Hav Ashram Prasad Sharma (No. 15393149W now JC-376989N), 01 January, 2007

Hav A Nagarajan (No. 15377318H now JC-377151X), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav R Chandra Debnath (No. 15382922A now JC-377152A), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav J K Kamwal (No. 15392100N now JC-377153H), 01 January, 2007

Hav M D Mahasin (No. 15397043F now JC-377154L), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Koshor Kumar Madayi (No. 15388915X now JC-377155N), 02 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav S Jeya Kumar (No. 15383805Y now JC-377156W), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav S Radha Krishnan (No. 15378426Y now JC-377157Y), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Ramesh Lal (No. 15391286W now JC-377158F), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Rajeesulal K (No. 15393253K now JC-377159K), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Ashok Kumar Jena (No. 15397212X now JC-377160Y), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav N Manoharan (No. 15390517P now JC-377161F), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Prasanna Kumar Ojha (No. 15383875X now JC-377162K), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav A Sekar (No. 15375851Y now JC-377163M), 01 April, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 January 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Chavan Ajay Kumar B (No. 15390063M now JC-377389X), 01 July, 2007

Hav Satyeswar Bhunia (No. 15386833W now JC-377458H), 01 August, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav U Subba Rao (No. 15368058F now JC-377390M), 01 July, 2007

Hav Ashok Kumar (No. 15399970N now JC-377391P), 01 July, 2007

Hav Ravin Singh (No. 15399437Y now JC-377392X), 01 July, 2007

Hav Srinivasaiah G (No. 15661066W now JC-377393A), 01 July, 2007

Hav Sib Sankar Sahoo (No. 15392375F now JC-377395L), 01 July, 2007

Hav N P Singh (No. 15369965N now JC-377459L), 01 July, 2007

Hav Roop Singh (No. 15388117K now JC-377396N), 01 July, 2007

Hav P N Chandrakant (No. 15382484A now JC-377397W), 01 July, 2007

Hav Nirakar Behera (No. 15369659Y now JC-377460A), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Sanjiv Kumar (No. 15394265L now JC-377462L), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Kamat Chisundaram K (No. 15383618A now JC-377466F), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Meruyn C (No. 15661042M now JC-377468M), 01 July, 2007

Hav Sreenivasulu Reddy M (No. 15661414M now JC-377469P), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav T P Pandey (No. 15371719F now JC-377470K), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav P Palani (No. 15382021L now JC-377471M), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Yadvinder Kumar (No. 15386894N now JC-377474A), 01 July, 2007

Hav Sethu Madhavan K N (No. 15382200L now JC-377477N), 01 July, 2007

Hav Sutar Kalyan Laxman (No. 15384341Y now JC-377478W), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Niraj Ranjan (No. 15376679P now JC-377479Y), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav A K Dwivedi (No. 15385272A now JC-377480N), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav K Gopal Sharma (No. 15394692F now JC-377481W), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Maneesh Kumar (No. 15394290K now JC-377482Y), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjeet Singh (No. 15399221X now JC-377484K), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav D S Bisht (No. 15371927W now JC-377485M), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Birendra Rawat (No. 15393439N now JC-377486P), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Sasi Kumar K (No. 15387186N now JC-377488A), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav R Vijaya Baskaran (No. 15393888H now JC-377489H), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav S C Joshi (No. 15388489P now JC-377490X), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Baiju P (No. 15374797K now JC-377491A), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav S L Rao (No. 15388251P now JC-377492H), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav M K Ojha (No. 15390308X now JC-377493L), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav Murigan R (No. 15387068A now JC-377494N), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

Hav G C Hanra (No. 15392407Y now JC-377495W), 01 September, 2007

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 2007 without effect on pay and allowances)

P RAMA SASTRY
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 151, dated 28th February, 2008.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Dalip Singh (JC-840258X), 01 November, 2007

Sub Chandra Bhan (JC-840259A), 01 December, 2007

Sub Chandan Lal (JC-143714W), 01 December, 2007

Sub Hira Lal Karki (JC-163400W), 01 December, 2007

Sub Thoru Ram (JC-235521W), 01 December, 2007

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Dilbag Singh (JC-578093P), 01 October, 2007

Nb Sub Naman Singh Thapa (JC-623021A), 01 November, 2007

Nb Sub Balbir Singh (JC-528296H), 01 November, 2007

Nb Sub Gurmej Singh (JC-578512F), 01 November, 2007

Nb Sub Kawade Dilip Datta Rao (JC-172733K),
01 November, 2007

Nb Sub Surendra Singh (JC-528600F), 01 November,
2007

Nb Sub Manmohan Singh (JC-177522L), 01 November,
2007

Nb Sub Jamadar Nagappa (JC-841066M), 01 December,
2007

Nb Sub Bhagwana Ram (JC-841076W), 01 December,
2007

Nb Sub Sidhan (JC-841079K), 01 December, 2007

Nb Sub Hukam Singh (JC-841081F), 01 December, 2007

Nb Sub Joginder Pal (JC-841084P), 01 December, 2007

Nb Sub Avtar Singh (JC-841100F), 01 December, 2007

Nb Sub Mohinder Singh (JC-164487P), 01 December,
2007

Nb Sub G Ram Doss (JC-841484F), 01 October, 2007

Nb Sub M Karia Perumal (JC-841485K), 01 December,
2007

PRADEEP KUMAR
Under Secy

ARMY BRANCH
CORRIGENDUM

No. 152, dated 28th February, 2008.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 312 published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made :—

Against : IC 46969 Vikram Singh, AC

For : 16 Dec 2004

Read : 22 Apr 2003

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C